


विशेष रिपोर्ट

एनर्जी


(जुलाई 2023)



Moneywise. Be wise.



स्रोत: रायटर्स एवं एसएमसी रिसर्च



स्रोत: रायटर्स एवं एसएमसी रिसर्च

जून में कच्चे तेल की कीमतों में 3.5% से अधिक की मासिक वृद्धि गई। लेकिन तेल की कीमतों में लगातार चौथी तिमाही में गिरावट दर्ज की गई क्योंकि निवेशकों को चिंता थी कि वैश्विक स्तर पर सुस्त आर्थिक गतिविधि ईंधन की मांग को कम कर सकती है। प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में बढ़ती ब्याज दरों और चीनी मैनुफैक्चरिंग और खपत में उम्मीद से धीमी रिकवरी के कारण कीमतों पर दबाव रहा है। दबाव में वृद्धि इस कारण भी हुई कि दुनिया के दूसरे सबसे बड़े तेल उपभोक्ता चीन में औद्योगिक कंपनियों के वार्षिक मुनाफे में वर्ष के पहले पांच महीनों में दोहरे अंकों में गिरावट हुई। लेकिन, संयुक्त राज्य अमेरिका में कच्चे तेल और रिफाईंड उत्पादों की मांग में बढ़ोतरी से भी बाजार को समर्थन मिला। ईआईए के आंकड़ों से पता चलता है कि अप्रैल में कच्चे और पेट्रोलियम उत्पादों की मांग थोड़ी कम होकर 20.446 मिलियन बैरल/दिन हो गई, लेकिन मौसमी रूप से अधिक रही। 2024 तक आपूर्ति सीमित करने के लिए व्यापक ओपेक+ समझौते के अलावा जुलाई में प्रति दिन 1 मिलियन बैरल उत्पादन में कटौती करने की सऊदी अरब की योजना से भी कीमतों को समर्थन मिला।

आउटलुक

- वैश्विक मंदी, उच्च मुद्रास्फीति और साथ ही चल रहे भू-राजनीतिक घटनाक्रमों की आशंकाओं के कारण तेल की कीमतों में मौजूदा अस्थिरता जारी रह सकती है।
- आर्थिक मंदी की आशंका से ईंधन की मांग में कमी आई है क्योंकि अमेरिकी मुद्रास्फीति केंद्रीय बैंक के 2% लक्ष्य से अधिक है और उम्मीद बढ़ गई है कि बैंक ब्याज दरें फिर से बढ़ाएगा
- यूरोप में खबर और भी बुरी है, यूरोजोन साल की पहली तिमाही में मंदी में प्रवेश कर गया है और बाद के महीनों में विकास में मामूली सुधार हुआ है। यूरोपीय सेंट्रल बैंक द्वारा वित्त को कम करने के लिए लगातार नीतिगत सख्ती के कारण जून में यूरोजोन की मैन्युफैक्चरिंग गतिविधि में शुरुआती अनुमान से अधिक तेजी से गिरावट हुई।
- बाजार आने वाले महीनों में दुनिया की कई सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में ब्याज दरों में अधिक बढ़ोतरी की संभावना पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिससे आर्थिक गतिविधि संभावित रूप से निराशाजनक हो सकती है और इस प्रकार कच्चे तेल की मांग कम हो सकती है।
- रॉयटर्स के अनुसार चीन ईरान और वेनेजुएला से आयातित और कार्गो जांच में वृद्धि के कारण बंदरगाहों पर हफ्तों तक इंतजार कर रहे अनुमानित 10 मिलियन बैरल तेल जारी करना शुरू कर देगा।
- कुछ विश्लेषकों को उम्मीद है कि शीर्ष निर्यातक सऊदी अरब द्वारा जुलाई में प्रति दिन अतिरिक्त 1 मिलियन बैरल उत्पादन कटौती का वादा करने के बाद दूसरी छमाही में आपूर्ति में कमी आएगी और कीमतें बढ़ेंगी, जबकि अमेरिका धीरे-धीरे अपने रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व की भरपाई कर रहा है।
- दुनिया के शीर्ष तेल निर्यातक सऊदी अरब ने अगले महीने अपने उत्पादन में गहरी कटौती करने की प्रतिज्ञा के बाद, जुलाई में एशियाई खरीदारों के लिए अपने प्रमुख कच्चे तेल अरब लाइट की कीमतें छह महीने के उच्चतम स्तर पर बढ़ा दीं।
- रूस के उप प्रधान मंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने कहा कि सऊदी अरब के साथ मिलकर वैश्विक तेल की कीमतों को बढ़ाने की कोशिश कर रहा रूस अगस्त में अपने तेल निर्यात में 500,000 बैरल/दिन की कमी करेगा, जिससे वैश्विक आपूर्ति और भी कम हो जाएगी।
- सऊदी अरब ने कहा कि वह अपने स्वैच्छिक तेल उत्पादन में प्रति दिन दस लाख बैरल की कटौती को अगस्त सहित एक महीने के लिए बढ़ा देगा, जिससे तेल की कीमतें बढ़ सकती है।



स्रोत: रॉयटर्स



स्रोत: रॉयटर्स

जुलाई 2023 में, कच्चे तेल की कीमतें 5300-6100 के दायरे में उठापटक के साथ कारोबार कर सकती हैं, जहां निकट सपोर्ट स्तर पर खरीदना और रेजिस्टेंस पर बिकवाली करना बेहतर रणनीति होगी।

नेचुरल गैस

जून में, नेचुरल गैस की कीमतें नाइमेक्स पर लगभग 23% और एसीएक्स पर लगभग 21% बढ़ीं और एक साल में अपना सर्वश्रेष्ठ मासिक रिटर्न दर्ज किया। दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका में गर्मी की लहर के कारण वातानुकूलन के लिए मांग बढ़ने से बाजार चार महीने के उच्चतम स्तर पर स्थिर रहा। टेक्सास और अन्य दक्षिणी क्षेत्रों में 100 डिग्री फारेनहाइट से ऊपर भीषण तापमान का अनुभव हुआ, पूर्वानुमान के अनुसार अगले 10 दिनों तक गर्म मौसम बना रहेगा। लेकिन, ऊर्जा सूचना प्रशासन के अनुसार 2.73 ट्रिलियन क्यूबिक फीट तक पहुँचने वाली नेचुरल गैस के अधिक भंडार कीमतों की बढ़त पर रोक लगी।

आउटलुक

- नेचुरल गैस बाजार में अस्थिरता दर्ज की गई क्योंकि यह मौसम की स्थिति से प्रभावित रहा। व्यापारियों और निवेशकों ने आपूर्ति और मांग के दृष्टिकोण पर बारीकी से नजर रखी, जिसमें मौसम के पूर्वानुमान, मुद्रास्फीति के आंकड़े और भंडारण स्तर बाजार के सेंटीमेंट को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- एसएंडपी ग्लोबल के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, यूरोप में नेचुरल गैस भंडारण क्षमता 77% तक पहुँच गई है, जो वर्ष 2022 की समान अवधि में 58% और 2021 में 48% रही है।
- चीन नेचुरल गैस की खरीदारी कर रहा है, और वैश्विक ऊर्जा संकट कम होने के बाद भी आयातकों के सौदे जारी रखने से अधिकारी खुश हैं। चीन गैस उत्पादन को बढ़ावा दे रहा है, जबकि नई पाइपलाइनों का निर्माण होने पर रूस से ओवरलैंड शिपमेंट बढ़ सकता है।
- मौसम विज्ञानियों ने कम से कम जुलाई के मध्य तक निचले 48 राज्यों में सामान्य से अधिक गर्म मौसम की भविष्यवाणी की है, जिससे निर्यात सहित गैस की मांग बढ़ सकती है। फिर भी, अगले सप्ताहों में तापमान में नरमी के कारण मांग में थोड़ी कमी आने का अनुमान है।
- इसके अतिरिक्त, रूस से यूरोप तक नेचुरल गैस की कम आपूर्ति के परिणामस्वरूप पुनःपूर्ति की आवश्यकता हुई है, जिससे बाजार के दृष्टिकोण को समर्थन मिला है। जैसे-जैसे पतझड़ का मौसम नजदीक आ रहा है, यूरोपीय संघ तरलीकृत नेचुरल गैस खरीदने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर रुख कर सकता है, जिससे बाजार के फंडामेंटल को मजबूती मिलेगी।



जुलाई में एमसीएक्स पर नेचुरल गैस की कीमतों के रूझान के साथ साइडवेज कारोबार कर सकती है, जहां कीमतों को 250 पर रेजिस्टेंस है। सपोर्ट 210 के करीब देखा जा रहा है।

प्रतिभूति

आप इस रिपोर्ट को हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं- www.smctradeonline.com



Corporate Office:
 11/6B, Shanti Chamber,
 Pusa Road, New Delhi - 110005
 Tel: +91-11-30111000
www.smcindiaonline.com

Mumbai Office:
 Lotus Corporate Park, A Wing 401 / 402, 4th Floor,
 Graham Firth Steel Compound, Off Western
 Express Highway, Jay Coach Signal, Goreagon
 (East) Mumbai - 400063
 Tel: 91-22-67341600, Fax: 91-22-67341697

Kolkata Office:
 18, Rabindra Sarani, Poddar Court, Gate No-4,
 5th Floor, Kolkata-700001
 Tel.: 033 6612 7000/033 4058 7000
 Fax: 033 6612 7004/033 4058 7004

प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ लें। सेबी द्वारा दिया गया पंजीकरण और एनआईएसएम से प्रमाणन किसी भी तरह से मध्यस्थ के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देता है या निवेशकों को रिटर्न का कोई आश्वासन नहीं देता है। उद्धृत प्रतिभूतियां केवल उदाहरण के लिए हैं और अनुसंधानात्मक नहीं हैं। एसएमसी सेबी द्वारा पंजीकृत एक अनुसंधान विश्लेषक है जिसका पंजीकरण संख्या आईएनएच 100001849 है। सीआईएन: L74899DL1994PLC063609 है।

एसएमसी ग्लोबल सिन्क्रोटीज लिमिटेड (जिसे एसएमसी कहा जाता है) का नियम भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा किया जाता है और इसे ब्रोकिंग व्यवसाय, डिपॉजिटरी सेवाएं और संबंधित सेवाएं करने का लाइसेंस प्राप्त है। एसएमसी ग्लोबल सिन्क्रोटीज लिमिटेड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, एमएस्आई (मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड) का रजिस्टर्ड सदस्य है और एम/एस एसएमसी कॉम्प्लेक्स नेशनल कॉमोडिटी एवं डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड और मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया और भारत के अन्य कॉमोडिटी एक्सचेंजों का रजिस्टर्ड सदस्य है। इसकी सहयोगी एमसीएस स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड को सदस्य है। एसएमसी सीडीडीएसएल (CDSL) और एनएसडीएल (NSDL) के साथ डिपॉजिटरी भागीदार के रूप में भी रजिस्टर्ड है। एसएमसी को अन्य एसोसिएट सेवा और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मंचेंट बैंकर, पोर्टफोलियो मैनेजर के रूप में रजिस्टर्ड है। यह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में एएफएफआई (AMFI) में भी रजिस्टर्ड है।

एसएमसी ग्लोबल सिन्क्रोटीज लिमिटेड सेबी (रिसेच एनालिस्ट) रेगुलेशन 2014 के तहत रिसेच एनालिस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन संख्या INH100001849 के साथ रजिस्टर्ड संस्था है। एसएमसी ग्लोबल सिन्क्रोटीज लिमिटेड या इसके सहयोगियों को सेबी द्वारा अन्य किसी रेगुलेटरी एथारिटी द्वारा सिन्क्रोटीज मार्केट/कॉमोडिटी मार्केट में कारोबार के लिए प्रतिबंधित/निलंबित नहीं किया गया है। रिपोर्ट में रिसेच एनालिस्टों द्वारा व्यक्त की गई राय केवल सार्वजनिक रूप से प्राप्त सूचनाओं/इंटरनेट आंकड़ों/अन्य विश्वसनीय स्रोतों, जिन्हें सत्य माना जाता है, पर आधारित है। एसएमसी रिपोर्ट में व्यक्त राय या सामग्री को लेकर कोई आश्वासन नहीं देता है और निवेशकों को सलाह दी जाती है कि निवेश के लिए कोई भी निर्णय करने से पहले बाजार को परिस्थितियों/जोखिमों का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करें। रिसेच एनालिस्ट, जिन्होंने इस रिपोर्ट को तैयार किया है, एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि इस रिपोर्ट में किसी कॉमोडिटी के संदर्भ में व्यक्त किया गया विचार/राय उनके निजी स्वतंत्र विचार/राय है।

दिसक्लेमर: यह रिसेच रिपोर्ट अधिकृत प्राप्तकर्ता को व्यक्तिगत सूचना के लिए है और इसका निवेशक को किसी निवेश, विधिक एवं कर संबंधी परामर्श से संबंध नहीं है। यह केवल प्राइवेट सफ्टवेयर एवं उपयोग के लिए है। यह रिपोर्ट विश्वस्त सूचनाओं पर आधारित है लेकिन यह पूरी तरह सही और पूर्ण है, ऐसा जरूरी नहीं और इस पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। रिपोर्ट के कन्टेन्ट के आधार पर कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। इस रिपोर्ट को एसएमसी से लिखित आज्ञा के बिना किसी भी रूप में नकल एवं किसी भी अन्य व्यक्ति को पुनः वितरण नहीं किया जाना चाहिए। इस सामग्री का कन्टेन्ट सामान्य है और यह न तो पूरी तरह से व्यापक है और न विस्तृत है। इस रिपोर्ट के आधार पर उठाये गये किसी कदम से होने वाली क्षति या नुकसान के लिए न तो एसएमसी और न इसका कोई संबंधी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉरिक्टर या कर्मचारी को उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। यह कोई व्यक्तिगत अनुमोदन नहीं करता या किसी खास निवेश उद्देश्य, वित्तीय स्थिति या किसी व्यक्तिगत ग्राहक या कॉरपोरेट या सत्ता को जरूरतों को लेकर नहीं चलता है। सभी निवेश जोखिमपूर्ण होते हैं एवं पिछला प्रदर्शन भविष्य के किसी प्रदर्शन को गारंटी नहीं देता है। निवेश को वैल्यू और उससे प्राप्त आमदनी एक निश्चित समय में उपलब्ध कुछ बढ़े एवं सूक्ष्म कारकों के बदलाव पर निर्भर कर सकती है। निवेश का निर्णय लेते समय किसी भी व्यक्ति को अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए।

कृपया ध्यान रखें कि हम या हमारा कोई अधिकारी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉरिक्टर या कर्मचारी, जो भी इस रिपोर्ट को बनाने या भेजने में शामिल है उसको (अ)समय-समय पर किसी भी कॉमोडिटी में, जिनका इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है, खरीद या विक्री, कोई भी पोजिशन हो सकती है और वह इस कॉमोडिटीज को खरीद या विक्री कर सकता है या (ब) साथ ही साथ वह इन कॉमोडिटीज के किसी भी प्रकार के सौतों में और ब्रोकरेज या अन्य प्रकार के प्रतिकर में अथवा बाजार निर्माण में शामिल हो सकता है, (स) इस रिपोर्ट में दिए गये सुझावों और संबंधित सूचनाओं एवं विचारों के संदर्भ में इनका अपना कोई भी निहित स्वार्थ या विवाद हो सकता है। सभी विवादों का निपटारा अंतिम रूप से दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीन होगा।